



NP – 070

I Semester B.C.A./B.Sc. (FAD) Examination, February/March 2024  
(NEP) (F+R)  
HINDI


Nibhandh, Alekhan Aur Sankshepan

Time : 2½ Hours

Max. Marks : 60

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। (10×1=10)

- 1) विश्व विख्यात लेखक एच.जी. वेल्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ?
- 2) वैशाली कौन-सी दृष्टि से अद्भुत संगम स्थली रही है ?
- 3) सत्य से आत्मा का संबंध कितने प्रकार का है ?
- 4) आलोपी की माँ क्या बेचती थी ?
- 5) लेखक क्या ओढ़े सो रहा था ?
- 6) युद्धस्थली में लड़नेवाली सेनाओं को कितने महीने से वेतन नहीं मिला था ?
- 7) किसने नर-नारायण की मूर्ति का उद्धार किया था ?
- 8) बौद्ध बुद्धदेव ने वैशाली के नागरिकों की क्या-क्या प्रशंसा की थी ?
- 9) मज़िनी किससे मिलने गए थे ?
- 10) “आलोपी” लेख के रचनाकार का नाम लिखिए।



II. किन्हीं दो की ससन्दर्भ व्याख्या कीजिए। (2×7=14)

- 1) इस क्षण में मैं दुख की ओर ध्यान देता, तो वह क्षण खंडित हो जाता ।
- 2) अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तू मुर्दों को फिर ज़िला दे और फिर उन्हें मारना शुरू कर।
- 3) प्रिय तुम बहुत भोली हो। मेरे दौरे का कार्यक्रम यह कौआ थोड़े-ही बनाता है; वह कौआ बनाता है जिसे हम ‘बड़ा साहब’ कहते हैं।

P.T.O.



- III. किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। (1×16=16)
- 1) “आनन्द के क्षण’ निबन्ध का वर्णन घटनाओं के आधार पर कीजिए।
  - 2) “पीछे मत फेंकिये” निबन्ध का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
- IV. किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। (1×5=5)
- 1) जीवन में साहित्य
  - 2) घायल बसन्त
- V. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। (2×4=8)
- 1) आलेखन किसे कहते हैं ? इसकी विशेषताएँ बताइए।
  - 2) टिप्पण की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों का परिचय दीजिए।
  - 3) प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का परिचय दीजिए।
- VI. निम्नलिखित अनुच्छेद का एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण करके एक उचित शीर्षक लिखिए। 7

ज्ञान-प्राप्ति के साथ-साथ पर्यटन द्वारा हमें सरस और रुचिपूर्ण मनोरंजन भी प्राप्त होता है। विभिन्न स्थानों, वनों, पहाड़ों, नदी-तालाबों और सागर की उत्ताल तरंगों का अवलोकन कर मन झूम उठता है। पर्यटन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। जलवायु परिवर्तन से चित्त में सरसता और उत्साह का संचार होता है, जिससे हम प्रसन्न मनस्थिति में रहते हैं, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। देशाटन के दौरान हमें अनेक असुविधाओं और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हे सहन करके तथा इनका समाधान ढूँढ़ लेने पर हमें अद्भुत खुशी का अनुभव होता है।